



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 कार्तिक 1936 (श0)

(सं0 पटना 927) पटना, वृहस्पतिवार, 13 नवम्बर 2014

श्रम संसाधन विभाग

कार्यालय आदेश

16 अक्टूबर 2014

सं0 2/ई3-13033/2014 श्र0सं0-126—सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 10938 दिनांक 07.08.2014 के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्रीमती कुमारी बसंती, पति—स्व0 नीरज कुमार रजक, पुत्रवधु—स्व0 कोंकण रजक, भूतपूर्व वाशिंग व्याय, बिहार सचिवालय भोजशाला को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/-में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं अन्य भत्तों सहित पद भार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा श्रम अधीक्षक, कृ0श्र0 बेगूसराय के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती कुमारी बसंती की जन्म तिथि 16.02.1985 है।
3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
4. श्रीमती कुमारी बसंती पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलक्षियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का भुगतेय होगा।
5. श्रीमती कुमारी बसंती को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
7. यह नियुक्ति श्रीमती कुमारी बसंती द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मान कर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. श्रीमती कुमारी बसंती को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. श्रीमती कुमारी बसंती को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।

10. श्रीमती कुमारी बसंती पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं०-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।

11. श्रीमती कुमारी बसंती को नियुक्ति के छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

12. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से,
सुरेश कुमार सिन्हा,
श्रमायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 927-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>